

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज

Email- rwdwdarera1@gmail.com

पत्रांक- 2006(अउ०)

अरेराज- / दिनांक 19.9.24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल अरेराज,

सेवा में,

Branch Manager,
Bank Of Baroda,
Motihari

विषय :- संवेदक Utkarsh Anand Builders Pvt. Ltd के द्वारा दिये गये FD के सत्यापन के संबंध में।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक Utkarsh Anand Builders Pvt. Ltd को आपके द्वारा निर्गत किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

अतः उक्त FD को सत्यापन करते हुए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

अनु०- FD No. 12290300034652 Date- 19-09-2024 ✓

Amt- 113000 /-

FD No. 12290300034651 Date- 19-09-2024 ✓

Amt- 1290000 /-

(Total- 1403000/-)

Checked and verified
the FD
[Signature]



विश्वासभाजन
[Signature] 19/09/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।
[Signature] 19/9/24

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

UTKARSH ANAND BUILDERS PRIVATE LTD CO RENU PANDEY AT SRIKRISHNA NGR NEAR HO M THAKUR PO PS MOTIHARI 845401 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12290300034652
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1909244821
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No BVG003571
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12290400010658
		शाखा का नाम/Branch Name MOTIHARIBIHAR
योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)		
नामांकन / Nomination N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.		
पैन नंबर / PAN No. AABCU8773G		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation ANY TWO DIRECTORS		
नियन चिह्नित / Lien Marked N		
संयुक्त धारक / Joint Holder (s)		
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
113000	19-09-2024	7.30	0 Months 399 Days	23-10-2025	122304

*परिपक्वता मूल्य टैडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण कर्तव्य i) यदि अवधि अवधि के अंत में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच निम्नलिखित मामलों के लिए है 4. निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सौत पर कर कटौती की जाएगी 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा 6. परिपक्वता आहरण कर्तव्य i) रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1% बंड का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्डे दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा ii) रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1.5% बंड का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्डे दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा, रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए 7. नैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledged to E.E.-**RWD WORKS Division,**
Areraj
vide Lt No.-.....Dt.-**19-09-2024**



UTKARSH ANAND BUILDERS PRIVATE LTD CO RENU PANDEY AT SRIKRISHNA NGR NEAR HO M THAKUR PO PS MOTIHARI 845401 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12290300034651
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1909244836
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No BVG003571
		जुड़ाव खाता / Linked Operative a/c 12290400010658
		शाखा का नाम/Branch Name MOTIHARIBIHAR
योजना / Scheme नामांकन / Nomination नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No. पैन नंबर / PAN No. परिचालन पद्धति / Mode of Operation लियन चिह्नित / Lien Marked	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES) N AABCU8773G ANY TWO DIRECTORS N	संयुक्त धारक / Joint Holder (s) अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1290000	19-09-2024	7.30	0 Months 399 Days	23-10-2025	1396210

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज। i) यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष व इसके अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii) यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पार होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज: i) रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ii) रु. 1 करोड़ और इसके अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रुकी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इसके अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 7. गैर प्रतियोगी ब्याज के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause. i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause: i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice to be submitted 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of NON-CALLABLE DEPOSIT - Premature withdrawal not allowed.
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledged to E.E.- **R.W.D. WORKS Division.**
Areraj
 vide Lt No.-.....Dt.-**19-09-2024**

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज

Email- rwdwdarera1@gmail.com

पत्रांक- 1161 (अनु०)

अरेराज- / दिनांक- 05/07/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल अरेराज,

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
Bank Of Baroda,
Motihari East Champaran 845401

विषय :- संवेदक Utkarsh Anand Builders Private Limited के द्वारा दिये गये Bank Certificate एवं EMD के सत्यापन के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Tender (Tender ID-133525) हेतु आपके द्वारा Utkarsh Anand Builders Private Limited को Bank Certificate एवं EMD निर्गत किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

अतः उक्त Bank Certificate एवं EMD को सत्यापन करते हुए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

अनु०- Bank Certificate एवं EMD की छाया प्रति।

Bank Certificate and EMD
has been issued by our
branch. The said certificate
and EMD is valid and
genuine



विश्वासभाजन

05/07/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।



1. STRAINS AND SUBSIDIARIES PRIVATE LTD 100 PERU PARKWAY AT SINGAPORE SINGAPORE 100 SINGAPORE 100 SINGAPORE		2. STRAINS AND SUBSIDIARIES PRIVATE LTD 100 PERU PARKWAY AT SINGAPORE SINGAPORE 100 SINGAPORE 100 SINGAPORE	3. STRAINS AND SUBSIDIARIES PRIVATE LTD 100 PERU PARKWAY AT SINGAPORE SINGAPORE 100 SINGAPORE 100 SINGAPORE
4. STRAINS AND SUBSIDIARIES PRIVATE LTD 100 PERU PARKWAY AT SINGAPORE SINGAPORE 100 SINGAPORE 100 SINGAPORE	5. STRAINS AND SUBSIDIARIES PRIVATE LTD 100 PERU PARKWAY AT SINGAPORE SINGAPORE 100 SINGAPORE 100 SINGAPORE	6. STRAINS AND SUBSIDIARIES PRIVATE LTD 100 PERU PARKWAY AT SINGAPORE SINGAPORE 100 SINGAPORE 100 SINGAPORE	7. STRAINS AND SUBSIDIARIES PRIVATE LTD 100 PERU PARKWAY AT SINGAPORE SINGAPORE 100 SINGAPORE 100 SINGAPORE


new title / Document document	old title or title / State of Issue	new title / State of Issue	new title / Document document	new title / Document document	new title / Document document
new title / Document document	old title or title / State of Issue	new title / State of Issue	new title / Document document	new title / Document document	new title / Document document

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

1. **What is a cell?** A cell is the basic unit of life.
2. **What is a tissue?** A tissue is a group of cells that work together to perform a specific function.
3. **What is an organ?** An organ is a structure made up of different tissues that work together to perform a specific function.
4. **What is an organ system?** An organ system is a group of organs that work together to perform a specific function.
5. **What is a system?** A system is a group of organs and tissues that work together to perform a specific function.
6. **What is a body system?** A body system is a group of organs and tissues that work together to perform a specific function.
7. **What is a body system?** A body system is a group of organs and tissues that work together to perform a specific function.
8. **What is a body system?** A body system is a group of organs and tissues that work together to perform a specific function.
9. **What is a body system?** A body system is a group of organs and tissues that work together to perform a specific function.
10. **What is a body system?** A body system is a group of organs and tissues that work together to perform a specific function.

Please note: This is a system generated notice and does not require any signature.

Placed in E.G. DALE LORRAINE Div 2
FD-302 (Rev. 1-25-60)
JAN 17 1961 DA - DE - 100-442100-10



2/10/1900
 2/10/1900

